

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्लैक हिस्ट्री मंथ मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (28 जनवरी, 2022) – फरवरी के महीने के दौरान, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्लैक हिस्ट्री मंथ (Black History Month) मनाती है और ब्रैम्पटन में ब्लैक कम्युनिटी के कई योगदानों और उपलब्धियों को सम्मानित करती है, जिन्होंने पूरे इतिहास के दौरान, ब्रैम्पटन को ऐसा जीने योग्य, दयालु और खुशहाल शहर बनाने के लिए इतना कुछ किया है, जो यह आज है। फरवरी का महीना, व्यक्तिगत और ऑनलाइन, दोनों तरह के कार्यक्रमों से भरपूर होगा।

### ब्लैक हिस्ट्री मंथ झंडा फहराना

केन विलैन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square)

1 फरवरी, दोपहर 12 बजे

पैन-अफ्रीकन फ्लैग (Pan-African Flag), महीने के शुरू को प्रगट करने के लिए फहराया जाएगा और फरवरी के पूरे महीने तक लहराता रहेगा।

### ब्लैक बिजनेस आर्टिजन मार्किट – रेवेलियर अफ्रीक (Black Business Artisan Market – Reveiller Afriq)

ब्रैमली सिटी सेंटर (Bramalea City Centre)

8 और 9 फरवरी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक

ब्रैमली सिटी सेंटर की साझेदारी में पेश किए जाने वाले इस दो-दिन के व्यक्तिगत मार्किट अनुभव में, लोकल ब्लैक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले कारोबारों, मेकर्स और शिल्पकारों की हिमायत करें। आपको, दूसरी मंजिल पर बेस्ट बाए (Best Buy) के प्रवेश-द्वार के साथ अचानक आने वाले कलाकार मिलेंगे।

### वीकली परफॉर्मेंस सीरीज

प्रत्येक मंगलवार रात, 8 बजे से 10 बजे तक

[rosetheatre.ca](http://rosetheatre.ca)

पूरा महीना, प्रत्येक मंगलवार रात को ब्लैक हिस्ट्री का जशन मनाने के लिए, मनोरंजक ऑनलाइन परफॉर्मेंस सीरीज का आनंद लें। परफॉर्मेंस, रोज़ थिएटर (Rose Theatre) स्टेज से लाइवस्ट्रीम की जाएंगी।

- 1 फरवरी: डी.जे. एलन (DJ Allan) और डी.जे. वट्सनेक्सट (DJWHATSNEXT) के द्वारा पेश की जाने वाली डी.जे. वर्सेज बैटल (DJ Versus Battle)
- 8 फरवरी: शेद वहीद (Shade Waheed) के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड (Off the Record) के द्वारा तैयार की गई लाइव परफॉर्मेंस
- 15 फरवरी: [ACCIDA](#) के साथ साझेदारी में डेस मैकेंज़ी (Des McKenzie) के साथ परफॉर्मेंस
- 22 फरवरी: [ACCIDA](#) के साथ साझेदारी में ट्रेविस नाइट्स (Travis Knights) के साथ परफॉर्मेंस

**वीकली लंच'एन'लर्न्स (Weekly Lunch'n'Learns)**

प्रत्येक बुधवार, दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक

वीकली एजुकेशनल सेशन के लिए [MOYO हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विसिज \(MOYO Health & Community Services\)](#) से जुड़ें। विषयों में शामिल हैं:

- 2 फरवरी: ए.ब.आर. (ABR), इंटरसेक्शनैलिटी, पावर एंड प्रिविलेज (Intersectionality, Power & Privilege) का परिचय
- 9 फरवरी: ब्लैक महिलाओं की हिमायत करना
- 16 फरवरी: ब्लैक 2SLGBTQ+ व्यक्तियों की हिमायत करना
- 23 फरवरी: ब्लैक एक्सिलेंस का जशन मनाना

**ब्लैक हिस्ट्री मंथ एक्सपीरिएंस बॉक्स (Black History Month Experience Box)**

इस वर्ष, प्रसिद्ध एक्सपीरिएंस बॉक्स (Experience Box) वापस आ रहा है। यह लिमिटेड एडिशन, तैयार किए गए गिफ्ट बॉक्स, लोकल ब्लैक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले कारोबारों के उत्पाद और सेवाएं पेश करते हैं। सभी बॉक्सेज में शामिल होगा:

- [AuxGod म्यूजिक बैटल कार्ड गेम \(AuxGod Music Battle Card Game\)](#)
- [शूगर प्लम स्क्रब्स \(Sugar Plum Scrubs\)](#) के द्वारा, लेवेंड्यूला एंड टी ट्री ऑयल बॉडी स्क्रब (Lavendula and Tea Tree Oil Body Scrub)
- आर्ट्स वॉक ऑफ फेम इंडक्टी (Arts Walk of Fame Inductee), [इयान विलियम्स \(Ian Williams\)](#) के द्वारा *डिसऑरिएंटेशन (Disorientation)*
- तथा और भी बहुत कुछ!

बॉक्स उन पहले 50 लोगों को प्रदान किए जाएंगे, जो ब्लैक-सशक्तिकरण वाले संगठन, [रीस्टोरेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर सोशल ट्रांजिशन \(Restoration and Empowerment for Social Transition\)](#) या (R.E.S.T.) के लिए, कम से कम 20 डॉलर की चेरिटेबल डोनेशन देंगे।

**वेलनेस मूमेंट्स**

कपलस फिटनेस और योग सहित, वीकली तंदरुस्ती पलों के लिए, ब्रैम्पटन के मूल निवासी और प्रसिद्ध योग इंस्ट्रक्टर मैथ्यु बोनस (Matthew Bonas) से जुड़ें। नई क्लासें, हर सप्ताह उपलब्ध हैं।

**ब्लैक आर्टिस्ट्स लाइव हेयर डिजिटल एग्जिबिशन (Black Artists Live Here Digital Exhibition)**

गार्डन सक्वेयर (Garden Square)

[ACCIDA](#) के द्वारा पेश की जा रही है

आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) पेश करती है, *ब्लैक आर्टिस्ट लाइव हेयर (Black Artists Live Here)*, यह गार्डन सक्वेयर में 24' LED स्क्रीन

पर लगने वाली, पिक्सल डिजिटल स्क्रीन एग्जीबिशन (PIXEL Digital Screen Exhibition) है, जो फरवरी से मई 2022 तक, आठ लोकल कलाकारों, रचनाकारों और सामूहिक संस्थाओं का काम पेश करेगी।

कार्यक्रम के प्रायोजकों (स्पांसर्स), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), ब्रैम्पटन रियल एस्टेट बोर्ड (Brampton Real Estate Board) और सन लाइफ (Sun Life) के उदार सहयोग के लिए, उनका धन्यवाद।

ब्लैक हिस्ट्री मंथ के कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [brampton.ca/bhm2022](http://brampton.ca/bhm2022) पर जाएं।

## हवाले

“ब्रैम्पटन में ब्लैक कम्युनिटी के मेम्बर्स के महत्वपूर्ण कार्य, प्रतिभा और योगदानों को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए, ब्लैक हिस्ट्री मंथ के जशन में हमसे जुड़ें। ब्रैम्पटन की सांस्कृतिक विविधता ही इस शहर को इतना खास बनाती है और यह महत्वपूर्ण है कि हम हमारे इतिहास और कम्युनिटी को सम्मानित करें, ताकि हम एक शहर के तौर पर विकसित और खुशहाल होना जारी रख पाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन में ब्लैक कम्युनिटी, हमारे शहर के जोशीले मोजैक और लोकल पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि ब्लैक संस्कृति के बारे में और जानें, जो हमारे पास इस शानदार शहर में है और ब्लैक हिस्ट्री के जशन में हमसे जुड़ें। खुद को शिक्षित करने और कम्युनिटी के तौर पर जुड़ने के द्वारा, हम भविष्य में खुद को और भी मज़बूत शहर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्लैक हिस्ट्री मंथ, उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं का वार्षिक रिमाइंडर है, जो ब्रैम्पटन की ब्लैक कम्युनिटी, हमारे जोशीले शहर और आर्थिक लैंडस्केप में निभाती है। मुझे खुशी है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्लैक कम्युनिटी के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को मान्यता देने के लिए, इन उपलब्धियों का प्रचार करने का हिस्सा है। इसके बारे में जानने, इससे जुड़ने और इसका जशन मनाने के लिए पूरा महीना हमसे जुड़ें।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन सचमुच एक मोजैक है, जिसकी संस्कृति, इनोवेशन और विविधता तथा प्रतिभा का उपहार, ऐसे ग्लोबल विलेज की शानदार मिसाल है, जो एक-दूसरे की विशिष्टता और योगदानों को ऊंचा उठाता है और उनका जशन मनाता है। अगली पीढ़ियों को शिक्षित करने और दशकों से ब्लैक कम्युनिटी के द्वारा, कैनेडा में किए गए कई योगदानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ब्लैक हिस्ट्री मंथ का जशन मनाना बहुत महत्वपूर्ण है।”

- मिशेल बर्न (Michele Byrne), मैनेजर, इक्विटी ऑफिस

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)